

गुलनि ऐं पखीअड़नि जो दर्दु

पढ़णु / लिखणु

- नसुरु
- मजमून

जीवन-कौशल (जिंदगीअ जी सलाहियत) / सरगर्मियूं

- वातावरण खे साफु सुथिरो रखण जूं कोशिशूं
- इंसान पारां कुदिरत जो बचाउ या सदुपयोग
- वातावरण ते समूरी कुदिरत जो असरु

सारु

कुदिरत जा सुंदर नजारा असांजे मन खे खुशीअ सां भरे छडींदा आहिनि। साफु पाणी, साफु हवा, साफु-सुथिरो वातावरणु असांजे दिलि ऐं दिमागु खे तरोताजा था बणाईनि।

शहरनि जे विच में बागु खे फिफिड करे लेखियो वेंदो आहे। जहिडीअ तरह फिफिड हवा मां ऑक्सीजन खणी, कार्बन डाइ-ऑक्साईड कढी, शरीर खे तंदुरुस्त रखनि था, तहिडीअ तरह बागु में लगल बूटा न रुगो सभिनी खे ऑक्सीजन डियनि था, पर गुलनि जी खुशबूइ ऐं शीतल छाया पिण डियनि था। असांखे कुदिरत जी रौनक जो अहसासु थियणु घुरिजे ऐं कीअं उहो खुशमिजाज वातावरणु वापस सां बर्पा थिए, इन ते कम करणु घुरिजे। कुदिरत ऐं इंसान जे तरकीपसंद सुभाव में तालमेल हुअणु तमामु जरूरी आहे, छाकाणि त असां तरकी त करे रहिया आहियूं, पर गडोगडु कुदिरत जो नुक्सानु पिण करे रहिया आहियूं।

अहमु नुक्ता

- पखीअड़ा बि कुदिरत जो ई हिसो आहिनि, उहे बि वातावरण जी हालति में पंहिंजो योगदानु था डियनि। गलीजु हवा, गलीजु पाणी गिलाजतुनि जे करे उन्हनि जी जिंदगी खतरे में आहे। अजु वातावरण में जेके गिलाजतूं फहिलियल आहिनि, उन जो मुख्यु सबबु असां सभेई इंसान आहियूं।

अचो त समुझूं

- इंसान में बुद्धि, विवेकु ऐं कल्पना शक्ती आहे। इनकरे हू जड़-चेतन में दुख-सुख जी कल्पना करे, उन्हनि जे दुख खे दूर करण जी कोशिश कंदो आहे। इंसानु बेजान सां बि पंहिंजी कल्पना शक्तीअ जरीए मानव जहिडो वहिंवारु कंदो आहे त पोइ गुलनि जे दर्द जो बि हुन खे कीअं न अहसासु थिंदो? वण-टिण, गुल-फुल, हवा, कुदिरत जे वातावरण खां मुतासिरु था थियनि।
- इहा सचुपचु चिंता जी गाल्हि आहे त वण घटिजी रहिया आहिनि, सावक गुम थी रही आहे ऐं इंसान जे जीवन ते इनजो तबाही कंदडु असरु पइजी रहियो आहे। इन लाइ असां सभु जिमेदारु आहियूं।
- हिन मजमून में गुल जी पीड़ा जो बयानु कहिडी न सरल बोलीअ में कयो वियो आहे।
- हिन मजमून में पखीअड़नि ऐं गुलनि जे दर्द जो ई वर्णनु न आहे, पर समूरी कुदिरत ते जेको वातावरण जो असरु थो पवे, जेके खराबु नतीजा था निकिरनि, उहे पाठक खे कुझु करण लाइ मजबूरु कनि था।
- मजमून जो लागुपो बुद्धि तत्व सां आहे, जंहिं में कल्पना ऐं भावना खे तमामु घटि जगुह आहे।
- दलील प्रधान ऐं वीचार प्रधान हुअणु सबबु मजमून बुद्धी तत्व सां संबंध रखे थो।

- खराबु वातावरण खे दूरि करण जी कोशिश करियूं। वणनि-टिणनि, गुलनि ऐं पखियुनि जी रख्या करियूं। छाकाणि त इन्हनि खां सवाइ जीवन जी कल्पना करणु बेकारु आहे।
- तरकीअ जे नाले ते असां इंसाननि लाइ घणेई सहूलियतूं ईजाद कयूं आहिनि। पर जेकी कुदिरत असांजे जीवन खे पोषण डेई रही आहे, उनखे असां डुखु बि डिनो आहे। मिसाल तौर कारखाननि ऐं गाडियुनि मां निकिरंदडु दूहों बागनि, गुलनि, वणनि ऐं पखियुनि जो जीवन खतरे में थो विझे। जेकडहिं इहे वण, पखी, गुल गुमु थींदा त माणहुनि जो पंहिंजो अस्तित्व खतरे में अची वेंदो। इहा गाल्हि गंभीरता सां वठणु घुरिजे ऐं इन्हीअ डिंस में सुधार लाइ ज़रूरी कदम खणणु खपनि।

भाषा जो इस्तेमालु

फ़इलु (क्रिया) Verb-

क्रिया या फ़इलु उहो आहे, जहिं सां कंहिंजो कुझु करण या थियण जी ज़ाण पवे थी।

जीअं- जगदीश वियो, दीपेश आयो।

इन्हनि वाक्यनि या जुमिलनि में 'वियो' ऐं 'आयो' शब्द क्रियाऊं (फ़इलु) आहिनि।

फ़इलु जा किस्म-

1. फ़इलु लाजमी
2. फ़इलु मुतइदी

वधीक खां वधीक मार्कू कीअं हासिल कजनि

- मजमून खे बार-बार पढ़ण सां जवाब डियण में सहूलियत थिए थी।
- वधीक मार्कू हासिल करण लाइ वडे जवाब खे नंढनि नंढनि हिसनि में विरिहाइणु घुरिजे।
- वडे मजमून खे नंढनि नंढनि हिसनि में विरिहाइणु ज़रूरी आहे।

[15]

- चिपको आंदोलनु गढ़वाल जे चमोली जिले जे हिक गोठ रैणी खां शुरू थियो।
- हिन गोठ जी हिक साधारणु औरत गौरा देवीअ वणनि जे अहमियत ऐं कुदिरत जी पीड़ा खे समुझियो हो।
- इहो ई चिपकणु 'चिपको आंदोलन' जे नाले सां मशहूर थी वियो।
- 'चिपको आंदोलन' खे लोकप्रिय बणाइण में सुंदरलाल बहुगुणा सभिनी जगहियुनि 'वृक्षमित्र' जे नाले सां मशहूर थियो।

इहो ज़ाणणु पिण ज़रूरी आहे

- कुदिरत जो ज़रूरत खां वधीक इस्तेमालु कंदडनि ऐं कुदिरती वसीलनि खे नुकसानु पहुचाइण वारनि जी मुखालिफत जो इतिहासु तमामु लंबो आहे।
- प्राचीन काल में पहाड़ खे भूधर सडियो वेंदो हो, जहिं जो मतिलबु आहे भूइं याने धरतीअ खे धारणु करण वारो। जेकडहिं पहाड़ न हुजनि त पोइ धरतीअ जे अंदरि थींदड़ हलचलूं, पैदा थींदड़ गैसूं ऐं बियूं कारगुजारियूं या उथल-पुथल धरतीअ खे नासु करे सघनि था। पर जबल इन्हनि अंदरूनी हलचलुनि खां धरतीअ जी हिफाजत कनि था।
- जबलनि मां कीमती मैदिनी पदार्थ बि मिलंदा आहिनि।

पंहिंजी कथ/परख करियो

1. इंसानी रूप जो मतिलबु छा आहे?
(अ) जेको इंसानु न आहे, उनजी इंसान जे रूप में कल्पना करणु
(ब) बियनि जे दुख सुख खे पंहिंजो समुझणु
(स) वणनि, पहाड़नि ऐं नदियुनि वगैरह लाइ चिंता ज़ाहिरु करणु
(द) सचो इंसानु बणिजणु []
2. शहर में वणनि खे कहिडीअ तरह नुकसानु पहुची रहियो आहे?
3. लेखक जे अखियुनि में पाणी छो भरिजी आयो? जेकडहिं अहिडो नज़ारो तव्हीं डिंसो त तव्हांजी कहिडी हालति थिए?